



Mahendra's

FOR MORE DISCOUNT VISIT www.mahendras.org & USE PROMO CODE : **E14727**

Exam Analysis



Mahendra's



IBPS RRB 2021

✓

**LIVE MOCK
DISCUSSION**



10:15 AM



Reasoning

Study the following information carefully and answer the questions given below:
Eight persons i.e. P, Q, R, S, T, U, V and W live on separate floors of 8-floor building such as ground floor is numbered as 1st floor, just above floor it is numbered as 2nd floor and so on till the topmost floor is numbered as 8th floor but not necessarily in the same order.
P lives on an odd numbered floor. Three persons live between P and R who lives below P's floor. V lives on an even numbered floor. Q lives just below V's floor. S lives below Q's floor. U lives above W and below S floor. No one lives between R and U.

निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें:
आठ व्यक्ति अर्थात P, Q, R, S, T, U, V और W 8-मंजिल की इमारत के अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं जैसे कि भूतल की संख्या पहली मंजिल है, मंजिल के ठीक ऊपर इसे दूसरी मंजिल के रूप में गिना जाता है और इसी तरह सबसे ऊपर तक मंजिल की संख्या 8वीं मंजिल है लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो।

P एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। P और R के मध्य तीन व्यक्ति रहते हैं जो P के तल के नीचे रहता है। V एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। Q, V के तल के ठीक नीचे रहता है। S, Q के तल के नीचे रहता है। U, W के ऊपर और S तल के नीचे रहता है। R और U के बीच कोई नहीं रहता है।

8	V		T ✓
7	Q		P
6	S		V
5	P	X	Q
4	R		S
3	U		R
2	W		U
1	R		W

P (odd)

R (3) P

V-even

Q ↓

(S)

↓ S

U

↑ W

Study the following information carefully and answer the questions given below:
Eight persons i.e. P, Q, R, S, T, U, V and W live on separate floors of 8-floor building such as ground floor is numbered as 1st floor, just above floor it is numbered as 2nd floor and so on till the topmost floor is numbered as 8th floor but not necessarily in the same order.
P lives on an odd numbered floor.
Three persons live between P and R who lives below P's floor.
V lives on an even numbered floor.
Q lives just below V's floor.
S lives below Q's floor.
U lives above W and below S floor.
No one lives between R and U.

13. How many floors gap is there between P and V?

P और V के मध्य कितने तलों का अंतर है?

A. 1

~~B. None~~

C. 2

D. 3

E. More than three

FLOORS	PERSONS
8	T
7	P
6	V
5	Q
4	S
3	R
2	U
1	W

0:15

14. Four of the following five are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group?

निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए वे एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है?

- A. Q
- B. U
- C. T
- D. V
- E. S

FLOORS	PERSONS
8	T
7	P
6	V
5	Q
4	S
3	R
2	U
1	W

0:15

15. Which among the following pair of persons live on an odd numbered floor?

निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा जोड़ा विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है?

A.Q, V

~~B.W, Q~~

C.T, V

D.R, S

E. None of these

0:15

FLOORS	PERSONS
8	T
7	P
6	V
5	Q
4	S
3	R
2	U
1	W

16. Who among the following lives just below the person who lives on the 8th floor?

निम्नलिखित में से कौन आठवें तल पर रहने वाले व्यक्ति के ठीक नीचे रहता है?

- A.Q
- B.W
- ~~C.P~~
- D.T
- E.None of these

0:15

FLOORS	PERSONS
8	T
7	P
6	V
5	Q
4	S
3	R
2	U
1	W

17. Which among the following statements is/ are true?

~~I). T lives on the topmost floor~~

~~II). R lives just below S~~

~~III). More than three persons live between T and W~~

A. Only I

~~B. Both I and II~~

C. Only III

D. Only II

E. All I, II and III

FLOORS	PERSONS
8	T
7	P
6	V
5	Q
4	S
3	R
2	U
1	W

संलग्न में कौन सा/से सत्य सत्य है/हैं?

I. टी

II. आर, एस। ठीक ठीक है

III. टी और डब्ल्यू के बीच तीन से अधिक

A. I

B. आई और II अकाउंड

C. III

D. इसके विपरीत II

E. सभी I, II और III

0:15

1:30

'He loves his family' is written as 'sup rup mup cup'.
'My family likes him' is written as 'mup lup hup bup'
'Everyone loves him' is written as 'rup hup xup'.
'He likes animals' is written as 'sup tup bup'.

40 sec 5, 2, 4

What is the code for 'animals'?

- 1) Hup 2) cup 3) lup 4) bup 5) ~~tup~~

The code 'hup' is used for which of the following?

- 1) His 2) ~~him~~ 3) he 4) None of these 5) Cannot be determined

What is the code for 'family'?

- 1) Sup 2) rup 3) cup 4) ~~mup~~ 5) Cannot be determined

'He loves his family' is written as 'sup ~~rup~~ mup cup'.
'~~My~~ family likes him' is written as 'mup lup ~~hup~~ bup
'Everyone loves him' is written as '~~rup~~ ~~hup~~ xup.
'He likes animals' is written as 'sup tup bup'.



1,3

The code 'lup' is used for which of the following?

- 1) My 2) family 3) likes 4) him
5) None of these

What is the code for 'Everyone'?

- 1) Rup 2) hup ~~3) xup~~ 4) None of these
5) Cannot be determined



दस बक्सों को एक आलमारी में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले डिब्बे की संख्या पहली है, और इसके ठीक ऊपर वाले डिब्बे की संख्या दूसरी है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले डिब्बे को दसवें स्थान पर रखा जाता है। J और K के बीच चार डिब्बे रखे गए हैं जो एक विषम संख्या वाले स्थान पर रखे गए हैं। बॉक्स K को बॉक्स J के नीचे रखा गया है। बॉक्स M को बॉक्स K के नीचे रखा गया है। K और L के बीच दो बॉक्स रखे गए हैं, जो Q बॉक्स के ठीक नीचे रखा गया है। डिब्बा B, डिब्बा M के नीचे रखा गया है। Q डिब्बा 7वें स्थान पर रखा गया है। बॉक्स I को एक सम संख्या वाले स्थान पर रखा गया है लेकिन बॉक्स P के ऊपर रखा गया है। बॉक्स A को बॉक्स R के ठीक ऊपर रखा गया है।

Ten boxes are placed in an almirah such that the box which is at lowest place is numbered as 1st, and the box just above it is numbered as 2nd and so on till the topmost box is numbered as 10th position. Four boxes placed between J and K which is placed on an odd numbered position. The box K is placed below the box J. The box M is placed below the box K. Two boxes are placed between K and L which is placed just below Q box. Box B is placed below the box M. Q box is placed on 7th position. The box I is placed on an even numbered position but above the box P. The box A is placed immediate above the box R

10		J	J
9	x	P	:
8	.	J	✓
7	Q	Q	Q
6	J	L	.
5	X	A	K
4	.	R	.
3	✓	K	.
2	.	M	.
1	K	B	.



Ten boxes are placed in an almirah such that the box which is at lowest place is numbered as 1st, and the box just above it is numbered as 2nd and so on till the topmost box is numbered as 10th position. Four boxes placed between J and K which is placed on an odd numbered position. The box K is placed below the box J. The box M is placed below the box K. Two boxes are placed between K and L which is placed just below Q box. Box B is placed below the box M. Q box is placed on 7th position. The box I is placed on an even numbered position but above the box P. The box A is placed immediate above the box R



Box position	Box
10	I
9	P
8	J
7	Q
6	L
5	A
4	R
3	K
2	M
1	B

Which box is placed at the bottom?
1) J 2) K 3) I 4) Data inadequate 5) None of these

Which box is placed at the 9th position?
1) J 2) P 3) Q 4) Data inadequate 5) None of these

How many boxes are placed between L and B box?
1) Three 2) Two 3) Four 4) Seven 5) None of these

Four of the following five are alike in a certain way, based on their position. Which of the following does not belongs to that group?
1) B 2) L 3) K 4) A 5) Q


Choose the correct option?
~~1) J box is placed just above L box.~~
~~2) Two boxes are placed between P and Q.~~
3) R box is placed at an even numbered position. 4) K box is placed on at 4th number position. 5) None of the given option true.

5, 2, 3, 2, 3

Point E is 5 km to the South of point A. Point I is 5 km to the East of point E and point O is 5 km to the South of point I. Point U is 2 km to the West of point O while point V is 3 km to the south of point U. Point W is 3 km to the West of point V and point X is 5 km to the north of point W. What is the distance between A and X?

बिंदु E, बिंदु A के 5 किमी दक्षिण में है। बिंदु I, बिंदु E के 5 किमी पूर्व में है और बिंदु O, बिंदु I के दक्षिण में 5 किमी है। बिंदु U, बिंदु O के पश्चिम में 2 किमी है जबकि बिंदु V बिंदु U के दक्षिण में 3 किमी है। बिंदु W, बिंदु V के पश्चिम में 3 किमी है और बिंदु X, बिंदु W के उत्तर में 5 किमी है। A और X के बीच की दूरी क्या है?

- 1) 6 km
- ~~2) 8 km~~
- 3) 10 km
- 4) 9 km
- 5) 12 km

**30**


एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी ज्ञात है: H और C के मध्य केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, जो B के दायें से 5वें स्थान पर बैठा है। C, दायें छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। D पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर बैठा है और D और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, A और B के ठीक मध्य में बैठा है और A के दायें से दूसरे स्थान पर बैठा है। B और के बीच दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। G और H के ठीक बगल में बैठे हैं। G और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है

Certain number of person is sitting in a row facing towards north direction. Following information is known about them : Only two persons are sitting between H and C, who is sitting 5th to the right of B. C, is sitting 3rd from the right end. D is sitting at left most end of the row and there are only two persons sitting between D and A. F is sitting just in the middle of A and B and 2nd to the right of A. Not more than two persons are sitting between B and G and G is sitting just next to H. There are only one person is sitting between G and C

D - A - F - B - H G - C - -

B (2) A

Certain number of person is sitting in a row facing towards north direction. Following information is known about them : Only two persons are sitting between H and C, who is sitting 5th to the right of B. C, is sitting 3rd from the right end. D is sitting at left most end of the row and there are only two persons sitting between D and A. F is sitting just in the middle of A and B and 2nd to the right of A. Not more than two persons are sitting between B and G and G is sitting just next to H. There are only one person is sitting between G and C



how many persons are sitting in the row?
1) 10 2) 12 3) 14 4) ~~15~~ 5) None of these

4 3 2

How many persons are sitting to the left of person which is 3rd to the right of H?
1) 10 2) 11 3) ~~12~~ 4) 13 5) 14

How many persons are sitting between F and H?
1) 2 2) ~~3~~ 3) 4 4) 5 5) 6

30

Statements:
 $R \leq P \leq Q$; $R \geq S > T \leq M = U$

Conclusions: I. $Q > T$ II. $R \geq M$

1) Only II is True
 2) Only I is True
 3) Both I and II are True
 4) Either I or II is True
 5) None is true

Handwritten notes:
 $T < R \leq Q$
2, 1

Statements:
 $P < R < D < A < N$; $P > F = S$

Conclusions: I. $A = F$ II. $F < A$

1) Only II is True
 2) Only I is True
 3) Both I and II are True
 4) Either I or II is True
 5) None is true

Handwritten notes:
 $F < P < A$



Statements: $P < Q \geq G$; $G \geq I \geq E$; $C \leq P$; $C > U$

Conclusions: ~~I. $U > I$~~ ~~II. $P \leq E$~~

- 1) Both I and II are True
- 2) Only II is True
- 3) Either I or II is True
- 4) Only I is True
- 5) ~~Neither I nor II is true~~

Statements: $Y = O \leq G \leq K = U > L > P$; $Y = A \geq R$

Conclusions: ~~I. $U > R$~~ ~~II. $R = U$~~

- 1) Only II is True
- 2) Only I is True
- 3) Both I and II are True
- 4) ~~Either I or II is True~~
- 5) None is true

$R \leq Y \leq U$

(S, Y)

Statements: $N \geq T > P = A \geq Z = K$; $N = B > D$

Conclusions I. $D \geq Z$ II. $B > K$

- (1)
- 1) Only II is True
 - 2) Only I is True
 - 3) Both I and II are True
 - 4) Either I or II is True
 - 5) None is true


$$N > Z$$

$$K \leq N = B$$

10:15


9 मित्र A, B, C, D, E, F, G, H, और I एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, जिनमें से 4 केंद्र की ओर उन्मुख हैं जबकि अन्य बाहर की ओर उन्मुख हैं। A जो E के ठीक बायें बैठा है और I जो बाहर की ओर उन्मुख है, के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। F और D, I के निकटतम पड़ोसी हैं और विपरीत दिशा की ओर उन्मुख हैं। ए और एच और ए और बी के बीच समान संख्या में व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी तत्काल पड़ोसी हैं और विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। G, A और B के बीच में बैठा है और उसका मुख बाहर की ओर है। C, A के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है और G के समान दिशा की ओर उन्मुख है। I, H के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो D के समान दिशा की ओर उन्मुख है।

9 friends A, B, C, D, E, F, G, H, and I are sitting around a circular table of which 4 are facing the center while others are facing outside. 3 people are sitting between A who is sitting to the immediate left of E and I who is facing outside. F and D are immediate neighbors of I and are facing the opposite direction. The equal number of persons sits between A and H and A and B. B and D are the immediate neighbors and facing the opposite direction. G sits between A and B and facing outside. C sits third to the right of A and facing the same direction as of G. I is sitting third to the right of H who faces the same direction as that of D.



(4 centre)
(5 outside)

9 friends A, B, C, D, E, F, G, H, and I are sitting around a circular table of which 4 are facing the center while others are facing outside. 3 people are sitting between A who is sitting to the immediate left of E and I who is facing outside. F and D are immediate neighbors of I and are facing the opposite direction. The equal number of persons sits between A and H and A and B. B and D are the immediate neighbors and facing the opposite direction. G sits between A and B and facing outside. C sits third to the right of A and facing the same direction as of G. I is sitting third to the right of H who faces the same direction as that of D.



A x H
A x B
A (4) E


C G
out ↑

I (Outside)

F/I/D
↓ ↑

A/G/B
↓
outside

A — — C
↑ — — out
H — — D



What is the position of the person who is sitting second to the left of F?

- 1) Third to the right of G
- 2) Third to the right of C
- 3) Third to the left of A
- 4) Fourth to the right of E
- 5) Immediate left of B

How many people are sitting between H and D if counted from the left of D?


- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3
- 5) 6

3, 4, 2

Which of the following is true?

- ~~1) F is the immediate neighbor of B.~~
- ~~2) D is facing the same direction as that of E.~~
- ~~3) B is third to the right of E.~~
- ~~4) A, E, H and F are facing towards the center.~~
- ~~5) A is sitting forth to the right of I.~~






What is the position of F with respect to B?

- 1) Third to the left
- 2) Immediate left
- 3) Third to the right
- 4) Fifth to the right
- 5) Sixth to the right

Who is sitting exactly between G and F?

- 1) D
- 2) H
- 3) B
- 4) E
- 5) I

3, 1



How many such pairs of letters are there in the word GRANDEUR each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet (considering both ways).

शब्द GRANDEUR में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में (दोनों प्रकार से विचार करते हुए)।

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

G R A N D E U R

30

6 person, "A, B, C, D, E, F" goes for a movie on 6 different days from Monday to Saturday. A goes 2 days after D but before Friday. There is a 3 days gap between C and E. B goes on Saturday. F goes immediately before A. Who goes on Wednesday?
 6 व्यक्ति, "ए, बी, सी, डी, ई, एफ" सोमवार से शनिवार तक 6 अलग-अलग दिनों में एक फिल्म के लिए जाता है। A, D के 2 दिन बाद लेकिन शुक्रवार से पहले जाता है। C और E के बीच 3 दिन का अंतर है। B शनिवार को जाता है। F, A के ठीक पहले जाता है। बुधवार को कौन जाता है?

- 1) E 2) B 3) D 4) ~~F~~ 5) A


C (3) E

D
 (1) F
 A

Rs

Mon	C/E	D
Tue	D	F
Wed	F	A
Thur	A	.
Fri	C/E	.
Sat	B	B

✓



In a number '85214796' if 2 is added to all odd numbers and 1 is subtracted from all even numbers, then what will be the difference between the first digit from left end and the first digit from the right end?

एक संख्या '85214796' में यदि सभी विषम संख्याओं में 2 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में से 1 घटाया जाता है, तो बाएं छोर से पहले अंक और दायें छोर से पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा?

- 1) 7 2) 6 3) 5 4) 2 5) 3

8 5 2 1 4 7 9 6
7 7 1 3 3 9 11 5

30

In the given word 'EXPATRIATE' if the vowels are changed to the next letter and the consonants are changed to the previous letters as per the alphabetical series, then which letter/letters are re-peated more than once?

दिए गए शब्द 'EXPATRIATE' में यदि स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और वर्णानुक्रम के अनुसार व्यंजन को पिछले अक्षरों में बदल दिया जाता है, तो कौन से अक्षर/अक्षरों को एक से अधिक बार दोहराया जाता है?

1) J, O

2) O, Q

3) W 4) Q, J

5) B, F, S

E X P A T R I A T E
F W O B S Q J B S F
_ _ _

30

H.W

आठ व्यक्ति A, B, C, D, E, F, G, और H हैं, जो मंजिल 1, मंजिल 2, मंजिल 3 और मंजिल 4 के बीच चार अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। प्रत्येक मंजिल में दो अलग-अलग फ्लैट हैं। फ्लैट 1 और फ्लैट 2) प्रत्येक मंजिल पर फ्लैट 1-फ्लैट 2 बाएं से दाएं इस तरह से हैं कि चौथी मंजिल का फ्लैट 1 तीसरी मंजिल के फ्लैट 1 के ठीक ऊपर है और तीसरी मंजिल का फ्लैट 1 बिल्कुल ऊपर है दूसरी मंजिल का फ्लैट 1 और अन्य फ्लैट उसी तरह स्थित हैं। C उस मंजिल के ऊपर एक मंजिल पर रहता है जिस पर B रहता है। F, B के साथ रहता है जो D से दो मंजिल नीचे रहता है। B दूसरी मंजिल पर रहता है। E पहली मंजिल के फ्लैट 2 में रहता है। G तीसरी मंजिल पर रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं। H चौथी मंजिल पर नहीं बल्कि फ्लैट 1 में रहता है। B सम संख्या वाले फ्लैट में रहता है। A और C फ्लैट 1 में रहते हैं लेकिन अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं।

There are eight persons A, B, C, D, E, F, G, and H, who live on four different floors among floor 1, floor 2, floor 3 and floor 4. Each floor has two different flats viz. flat 1 and flat 2) There are 2flats on each floor flat 1 –flat 2from left to right in such a way that flat 1 of the fourth floor is exactly above flat 1 of the third floor and flat 1 of the third floor is exactly above flat 1 of the second floor and other flats are situated in the same way.C lives one floor above the floor on which B lives. F lives with B who lives two floors below D. B lives on the second floor. E lives in flat 2 of the first floor. G lives on the third floor but not in flat 1. H does not live on the fourth floor but in flat 1. B lives in even numbered flat. A and C live in flat 1 but on different floors.

	Flat1	Flat2
Floor4	A	D
Floor3	C	G
Floor2	F	B
Floor1	H	E

who live in the flat 1 of floor 2?

- 1) B 2) C 3) F 4) A 5) G

Who lives two floor below the floor on which G lives in the same flat number?

- 1) A 2) F 3) C 4) E 5) None of these

Who lives on the same floors?

- 1) H and G 2) F and B 3) C and B 4) E and D
5) None of the above



Who live on the fourth floor of flat 2? 1) H 2) C 3) A
4) E 5) D

Which of the following given pair is different from rest?

- 1) H and C 2) G and E 3) C and F 4) E and G
5) B and D


सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। प्रत्येक की अलग-अलग आयु (वर्षों में) है, अर्थात् 4, 15, 17, 19, 21, 23 और 40 लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। वह व्यक्ति जिसकी आयु 19 वर्ष है, C और F के बीच में बैठा है। F, E के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है, जिसकी आयु B से 6 वर्ष अधिक है। A, B के ठीक बाएं बैठा है, जिसकी आयु 5 का गुणज है, लेकिन नहीं 20 से अधिक। F की आयु, E और G की आयु का योग है। केवल एक व्यक्ति है जो F के ठीक दायें बैठा है। C जिसकी आयु दो अंकों की अभाज्य संख्या है, उस व्यक्ति के दायें से तीसरे स्थान पर बैठा है जिसका उम्र 4 साल है। D की आयु G की आयु से दो वर्ष कम है।

There are seven persons A, B, C, D, E, F and G sitting in a row facing north direction but not necessarily in the same order. Each one has a different age (in years), i.e., 4, 15, 17, 19, 21, 23 and 40 but not necessarily in the same order. The person whose age is 19 years is sitting between C and F. F is sitting 3rd to the right of E whose age is 6 years more than that of B. A sits just immediately left of B whose age is a multiple of 5 but not more than 20. Age of F is the sum of the ages of E and G. There is only one person who sits to the immediate right of F. C whose age is a two digit prime number sits 3rd to the right of the person whose age is 4 years. Age of D is two years less than the age of G.



$$F = E + G$$


$$(40) = (21) + (19)$$



$$D = (17)$$

There are seven persons A, B, C, D, E, F and G sitting in a row facing north direction but not necessarily in the same order. Each one has a different age (in years), i.e., 4, 15, 17, 19, 21, 23 and 40 but not necessarily in the same order. The person whose age is 19 years is sitting between C and F. F is sitting 3rd to the right of E whose age is 6 years more than that of B. A sits just immediately left of B whose age is a multiple of 5 but not more than 20. Age of F is the sum of the ages of E and G. There is only one person who sits to the immediate right of F. C whose age is a two digit prime number sits 3rd to the right of the person whose age is 4 years. Age of D is two years less than the age of G.

(4 years) (15 years) (21 years) (23 years) (19 years) (40 years) (17 years)



How many people sit between A and D?

- 1) 5 2) 4 3) 3 4) 2 5) None of the above


1, 2, 3

What is the age of F?

- 1) 21 years 2) 40 years 3) 17 years
4) 15 years 5) 19 years

Which of the following is correct?

- ~~1) A sits third to the right of C~~
~~2) Age of F is 19 years~~
~~3) Sum of the age of A and B is same as that of G~~
~~4) Only one person sits between F and D.~~
~~5) Age of C is not a prime number.~~



Four of the following are alike in a certain way and so form a group. Which of the following does not belong to the group?

- 1) BC 2) GD 3) ~~GE~~ 4) AE 5) CF

Which of the following is correct?

- ~~1) A sits third to the right of C~~
~~2) Age of F is 19 years~~
~~3) Sum of the age of A and B is same as that of G~~
~~4) Only one person sits between F and D.~~
~~5) Age of C is not a prime number.~~

(4 years) (15 years) (21 years) (23 years) (19 years) (40 years) (17 years)

